

विद्या भवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय।

वर्ग- अष्टम विषय- हिंदी

शिक्षिका - सरिता कुमारी

दिनांक- 04-06-2020

यदि लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो
पा रहा है तो अपने लक्ष्य को ना बदलें, बल्कि
अपने प्रयासों को बदलें।

इस शुभविचार के साथ शुभ प्रभात बच्चों !!!!!

पिछले अध्ययन सामग्री में आपने प्रेमचंद द्वारा
रचित कहानी मंत्र को पढा और जाना। कहानी
से जुड़े कठिन शब्द एवं उनके अर्थ को भी
जाना।

अब मैं पाठ की समीक्षा करती हूँ।

पाठ समीक्षा

प्रेमचंद की 'मंत्र' कहानी दो वर्गों की कहानी है।
ये दो वर्ग हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब, दीन
सबल, सभ्य और असभ्य। 'मंत्र' दोनों के चरित्र
और चिन्तन, विचार और सुविधा, कठोरता और
तरलता के द्वंद्ववात्मकता का चरित्र-चित्रण है।
मोटे तौर पर देखने पर यह कहानी दो वर्गों
कहानी है। प्रेमचंद अपनी कथाओं में समाज का
यथार्थ चित्रण करते थे किन्तु उनका उद्देश्य
आदर्शमूलक था। उनकी सभी कहानियां समाज
के द्वंद्ववात्मक वर्गों का व्यापक चित्र प्रस्तुत

करती हैं। अच्छे और बुरे, अमीर और गरीब,
ऊंच और नीच, पढे-लिखे और अनपढ, ग्रामीण
और शहरी, उद्योगपति और मजदूर। इन दो
वर्गों के बीच कठोर द्वंद है।

मंत्र' कथा में प्रेमचंद ने इसका हल निकालने का
प्रयास किया है। मार्मिक यथार्थ और
आदर्शात्मक निदान के माध्यम से। किन्तु यह
भी द्वंद्वात्मक निष्कर्ष है। एक तरफ अमीर
(प्रतिकार्थक रूप में डॉक्टर चड्ढा)सभ्य,
सुविधासम्पन्न लोगों के पास दया, सेवाभाव,
करुणा, ममता, सहानुभूति का अभाव है। उसका
पूरा समय तो अपने लिए सुख, सुविधा, लाभ,
श्रेय जुटाने में बंटा हुआ ।दूसरी तरफ(प्रतीक के

रूप में भगत) दीन, हीन, वंचित, सर्वहारा,
श्रमजीवी वर्ग है, जिसके पास अपने लिए भले
ही कुछ न हो, 'दूसरों के लिए समय ही समय'
है। सेवा, उपकार, श्रमदान आदि इसी वर्ग के
लिए बनाए गए आदर्श हैं।

बच्चों, अब प्रश्नावली की बारी है।

अभ्यास प्रश्न

1. नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक
पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

सहरसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी
डॉक्टर साहब समझो कोई मरीज आया होगा
किसी और दिन वह उस आदमी को दुत्कार
देते मगर आज बाहर निकल आए।

क. भगत कौन था?

ख. डॉक्टर साहब ने क्या समझा?

ग. आज डॉक्टर साहब क्यों बाहर निकल आए?

घ. अर्थ लिखिए- दुत्कार।

2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

क. गरीब बूढ़ा व्यक्ति किस लिए अनुनय विनय कर रहा था?

ख. सांप देखने के लिए जिद करने वाली मृणालिनी अपनी जीत पर क्यों पछताने लगी थी?

ग. सांप ने कैलाश को क्यों काट लिया था?

घ. बूढ़ा चाह कर भी झोपड़ी में क्यों नहीं रह सका है?

ड. इलाज करने के बाद वहां से तुरंत गायब क्यों हो गया?

च. डॉक्टर साहब ने बूढ़े की सज्जनता से क्या सीखा?

आज के लिए बस इतना ही।

प्रश्नावली की कड़ी अगले दिन की

अध्ययन सामग्री में जारी रहेगी।

आप प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर

पुस्तिका में लिखें।

तब तक के लिए अपना ध्यान रखें

और खुश रहें।
